

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118]	दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2018/ज्येष्ठ 9, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 534
No. 118]	DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 2018/ JYAISTHA 9, 1940	[N.C.T.D. No. 534

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 29 मई, 2018

फा. सं. 01/1038/2017/जीए/डीसी/899.—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्ररन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.4.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/6/2009-स्था. (आरआर) के अनुसरण में तथा राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में समूह "घ" के पद हेतु समय-समय पर जारी समस्त पूर्व भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(क) इन नियमों को राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एमटीएस भर्ती नियमावली, 2018 कहा जायेगा।
- पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान** :- उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विषेश आधार है/किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव.**—इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

राजस्व विभाग, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली-54.

छठे वेतन आयोग से पूर्व समूह 'घ' में पदों के लिये मॉडल भर्ती नियम तथा जिन्हें समूह 'ग'—पे बैंड-1 (5200-20200/-रुपये) + ग्रेड पे 1800/-रुपये में रखा गया है।

1.	पदनाम	:	मल्टी टास्किंग स्टाफ
2.	पदों की संख्या	:	400* (कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैंड-1 (5200-20200)+ग्रेड पे 1800/- रुपये, सातवें वेतन आयोग द्वारा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 के लिये सं गोधित
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष टिप्पणी : असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख डिविजन इत्यादि के उम्मीदवारों को छोड़कर आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। यदि भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है तो आयु सीमा रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से निर्धारित की जायेगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	दसवीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	02 (दो) वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/	:	सीधी भर्ती द्वारा

	आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	<p>1. सचिव, राजस्व/मंडलीय आयुक्त — अध्यक्ष</p> <p>2. उपायुक्त (मुख्यालय)—1 — सदस्य</p> <p>3. अन्य विभाग से एक अधिकारी (सेवा विभाग द्वारा यथानामित) — सदस्य</p>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पी. आर. कौशिक, उप-सचिव, राजस्व/उप-मंडलीय दंडाधिकारी (मुख्यालय)

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th May, 2018

No. F. 01/1038/2017/GA/DC/899.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution and in accordance with DoPT O.M. No. AB-14017/6/2009-Estt (RR) dated 30.04.2010 and in supersession of all previous recruitment rules issued time to time for the post of Group “D” in the Department of Revenue, Government of National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff (MTS) in Revenue Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following namely:—

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Revenue Department, Government of National Capital Territory of Delhi, MTS Recruitment Rules 2018.
- Number of posts, its classification and scale of pay.**—The number of said post, its classification and the scale of pay attached shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualifications etc..**—The method of recruitment, age limit qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications.—No person,-**
 - Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for the appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that if necessary or expedient so to do, it may be order for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedules Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

REVENUE DEPARTMENT, 5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

Model recruitment Rules for the posts which were in Group 'D' Scales prior to Sixth Pay Commission and which have been placed in Group 'C' – Pay Band -1(Rs.5200-20200) + Grade Pay Rs.1800/-.

1	Name of the Post	Multi Tasking Staff
2	Number of Post	400* (subject to variation depending on workload)
3	Classification	Group – 'C', Non – Gazetted, Non - Ministerial
4	Pay Band and Grade Pay	Pay Band – I (Rs.5200-20200) + Grade pay of Rs.1800/-. Revised to level 1 of pay matrix by Seventh Pay Commission.
5	Whether Selection Post or non Selection Post	Not Applicable
6	Age limit for Direct Recruits	Between 18-25 Years Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K States, Lahaul & Spiti district and pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadeep.. In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
7	Education & other qualification required for Direct Recruits.	- Matriculation or equivalent pass
8	Whether age & education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Not applicable
9	Period of Probation , if any	Two years
10	Method of Recruitment whether by Direct recruitments or by promotion or by Deputation/ Absorption & % of the post to be filled by various methods	By Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/deputation/Absorption grades from which Promotion/ Deputation/Absorption to be made	Not Applicable

12	If a DPC exists, what is its composition	1. Secretary Revenue/Divisional commissioner-Chairperson 2. Deputy Commissioner(HQ) – I Member 3. One Officer from other department Member (As nominated by Services department)
13	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not Applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
P. R. KAUSHIK, Dy. Secy., Revenue/SDM(HQ)